



RootPURE
HAPPINESS SURE


ALOE VERA
with **Guava** Juice Fortified with Natural fibers

Dietary Supplement | Natural Ingredients


Net Vol. : 1000ml./33.814FL OZ



विषहरण



प्रतिरक्षा समर्थन



त्वचा का स्वास्थ्य



रक्त शर्करा
विनियमन



पाचन स्वास्थ्य - एलोवेरा जूस को अक्सर पाचन में सुधार करने की क्षमता के लिए प्रचारित किया जाता है। यह पाचन तंत्र में सूजन को शांत करने और कम करने में मदद कर सकता है, एसिड रिफ्लक्स, चिड़चिड़ा आंत्र सिंड्रोम (आईबीएस), और अन्य गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल मुद्दों जैसी स्थितियों में सहायता कर सकता है।



हाइड्रेशन - सांस लेने, पसीना आने और पेशाब करने जैसी गतिविधियों से शरीर में लगातार पानी की कमी होती रहती है। एलोवेरा जूस जैसे पानी युक्त पेय पदार्थों सहित तरल पदार्थों का सेवन, इन नुकसानों को पूरा करने में मदद करता है और शरीर के द्रव संतुलन को बनाए रखता है।



त्वचा का स्वास्थ्य - एलोवेरा का उपयोग आमतौर पर त्वचा की जलन को शांत करने और उपचार को बढ़ावा देने के लिए शीर्ष पर किया जाता है। एलोवेरा जूस पीने से इसके संभावित एंटी-इंफ्लेमेटरी और एंटीऑक्सीडेंट गुणों के कारण त्वचा को कुछ लाभ भी मिल सकते हैं।



पोषक तत्व - एलोवेरा जूस में विभिन्न विटामिन, खनिज और एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, जिनमें विटामिन ए, सी और ई, साथ ही फोलिक एसिड भी शामिल है। ये पोषक तत्व समग्र स्वास्थ्य और कल्याण के लिए महत्वपूर्ण हैं।



ALOEVERA

एलोवेरा जूस एलोवेरा पौधे के आंतरिक जेल से प्राप्त होता है और माना जाता है कि यह विभिन्न स्वास्थ्य लाभ प्रदान करता है। पाचन तंत्र को आराम देकर और सूजन को कम करके पाचन में सहायता के लिए इसकी अक्सर प्रशंसा की जाती है। इसके अतिरिक्त, विटामिन ए, सी और ई सहित इसकी पोषक संरचना त्वचा के स्वास्थ्य और जलयोजन का समर्थन कर सकती है। कुछ लोगों का सुझाव है कि एलोवेरा जूस वजन प्रबंधन में सहायता कर सकता है और अपने संभावित चयापचय-बढ़ाने और रक्त शर्करा को कम करने वाले प्रभावों के कारण रक्त शर्करा को नियंत्रित करने में मदद कर सकता है। जूस के इम्यूनोमॉड्यूलेटरी गुण हल्के प्रतिरक्षा समर्थन भी प्रदान कर सकते हैं। हालाँकि, इन दावों को और अधिक वैज्ञानिक सत्यापन की आवश्यकता है। जबकि एलोवेरा के सूजन-रोधी यौगिकों को सूजन को कम करने के लिए माना जाता है, अत्यधिक सेवन से दस्त जैसे प्रतिकूल प्रभाव हो सकते हैं। यदि एलोवेरा जूस पर विचार कर रहे हैं, तो किसी स्वास्थ्य देखभाल पेशेवर से परामर्श लें, खासकर यदि आपको मौजूदा स्वास्थ्य समस्याएं हैं या आप दवाएँ ले रहे हैं। संभावित प्रतिकूल प्रभाव वाले यौगिक, अवांछित एडिटिव्स या एलोइन से बचने के लिए शुद्ध, व्यावसायिक रूप से तैयार जूस चुनें।





जीएमपी प्रमाणित



कीटो अनुकूल



ग्लूटेन मुक्त



आयुष प्रमाणित



प्रीमियम गुणवत्ता



सुरक्षा के लिए लैब में परीक्षण



उपयोग कैसे करें ?



उपयोग से पहले बोतल
को हिलाएं।



गर्म पानी के साथ
30 मिलीलीटर जूस
पतला करें



भोजन से पहले
प्रतिदिन दो बार सेवन करें